

प्रेषक,

डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर-देहरादून

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: (6 नवम्बर, 2017)

विषय: रेशम कोया के मानसून फसल 2017 का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किये जाने
विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1019/रेशम/कोया मूल्य निर्धारण/2017-18, दिनांक 12.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, रेशम कोयों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में मानसून फसल 2017 हेतु विभिन्न श्रेणी के रेशम कोयों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न तालिकानुसार निर्धारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कोयों की श्रेणी	प्रति किलो कोयों की सं०	समर्थन मूल्य प्रति किलो (₹)
1.	ए श्रेणी	600 तक	260/-
2.	बी श्रेणी	601 से 700 तक	240/-
3.	सी श्रेणी	701 से 800 तक	210/-
4.	डी श्रेणी	801 से 1000 तक	200/-
5.	डबल कोया	---	130/-
6.	डेमेज कोया	---	32/-

2- तदनुसार प्रगति आख्या से समय-समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

संख्या-948(1)/XVI-2/17/17(04)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू.सी.आर.एफ., उत्तराखण्ड।
6. कोया मूल्य निर्धारण हेतु गठित समिति के समस्त सदस्यगण, द्वारा-निदेशक, रेशम विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एन.उप्रेती)
उप सचिव।